

## टिण्डल प्रभाव क्या है tyndall effect in hindi , परिभाषा , tinald prabhav kya hai

---

tyndall effect in hindi : **1. टिण्डल प्रभाव (tyndall effect) :** जब कोलॉइडी विलयन में प्रकाश पुंज गुजारा जाता है तो प्रकाश पुंज के लंबवत देखने पर प्रकाश पुंज का पथ चमकीला दिखाई देता है इसे टिण्डल प्रभाव कहते हैं तथा चमकीले पथ को टिंडल कोण कहते हैं।

उदाहरण :

- अंधेरे कमरे में प्रकाश के पुंज पथ में धूल के कोलाइडी कण चमकते दिखाई देते हैं।
- सिनेमा हॉल में प्रोजेक्टर द्वारा जब पर्दे पर प्रकाश पुंज डाला जाता है तो प्रकाश पुंज का पथ चमकीला दिखाई देता है।

व्याख्या :

कोलाइडी कण प्रकाश को अवशोषित कर उसे चारों ओर प्रकीर्णित करते हैं। जिससे प्रकाश पुंज का पथ चमकीला दिखाई देता है।

प्रश्न : वास्तविक विलयन टिण्डल प्रभाव प्रदर्शित नहीं करता क्यों ?

उत्तर : वास्तविक विलयन के कणों का आकार छोटा होता है ये प्रकाश को अवशोषित तो कर लेते हैं परन्तु उसे प्रकीर्णित नहीं कर पाते।

प्रश्न : कोलॉइडी विलयन टिण्डल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं , दो कारक लिखो।

उत्तर :

- इनकी परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम के अपवर्तनांक में अधिक अंतर होना चाहिए।
- कोलाइडी कणों का व्यास प्रकाश की तरंग दैर्घ्य से अधिक कम नहीं होता।